

छापेमारी में नकली 40 सिलाई मशीन बरामद, एक आरोपित गिरफ्तार

Author: Jagran Publish Date: Mon, 11 Apr 2022 11:46 PM (IST) Updated Date: Mon, 11 Apr 2022 11:46 PM (IST)



नौतनवा: कमिश्नर गोरखपुर के निर्देश पर सोमवार को एसडीएम, पुलिस व कंपनी अधिकारियों ने नौतनवा व निचलौल स्थित दो दुकानों पर छापेमारी 30 नकली मशीनों के साथ एक को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा दुकानदार भाग गया। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

नौतनवा में की गई छापेमारी में 10 डुप्लीकेट मशीनों समेत एक आरोपित को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

साहू समूह घोष कंपनी गोरखपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर सनूप कुमार साहू ने कंपनी के नाम से हेराफेरी कर कुछ दुकानदारों द्वारा नकली सिलाई मशीन बनाकर बेचने की शिकायत कमिश्नर गोरखपुर व जिलाधिकारी महाराजगंज से की थी। उनके निर्देश पर गोरखपुर के जिला उद्योग केंद्र के असिस्टेंट मैनेजर अखिलेश यादव, महाराजगंज के जिला उपायुक्त अभिषेक प्रियदर्शी, एसडीएम रामसजीवन मौर्य व पुलिस ने सोमवार शाम नौतनवा में अरविद इलेक्ट्रॉनिक दुकान जायसवाल मोहल्ला में छापेमारी की। जहां कापीराइट की गई चार साहू सिलाई मशीन व छह मजदा सिलाई मशीन बरामद हुईं।

इंस्पेक्टर राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि मैनेजिंग डायरेक्टर सनूप कुमार साहू की तहरीर पर आरोपित राजेश जायसवाल निवासी जायसवाल मोहल्ला पर कंपनी के साथ धोखाधड़ी, कापीराइट का मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

निचलौल संवाददाता के अनुसार स्थानीय कस्बे में सिनेमा मार्ग स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर सोमवार को साहू समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी की। दुकान से साहू कंपनी की 30 नकली मशीन बरामद की गईं। छापेमारी के दौरान आरोपित मौके से भागने में सफल रहा। इस मामले में पुलिस ने साहू समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर की तहरीर के आधार पर दुकान के प्रोपराइटर चौथी प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/maharajganj-fake-40-sewing-machines-recovered-in-raid-one-accused-arrested-22619740.html>

